

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

वर्ग -दशम् 'ब'।

वर्गशिक्षिका- सरिता कुमारी

विषय -सी. सी.ए.

दिनांक 22 -5 -2020

मेरे प्यारे बच्चों,

सुप्रभात।

प्रतिदिन आपको अध्ययन सामग्री मिला करता है।आज का दिन विशेष है जो अध्ययन सामग्री/सह शैक्षणिक गतिविधि

आधारित है। मैं आज वर्ग शिक्षक की भूमिका में हूँ।

हम सबको बड़ी प्यारी लगती है....
जिसका नाम है छुट्टी। आज छुट्टी है।
छुट्टी में कुछ नया करें।

ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद आप लगातार पढ़ते-पढ़ते ऊब गए होंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन पाठ्यक्रम से हटकर कुछ अलग किया जाए जिससे अपनेआप को चुस्त-दुरुस्त तंदुरुस्त बन सकें। हम लोग हमेशा सी. सी .ए. के अंतर्गत अलग-अलग गतिविधियां करते हैं।

ठीक उसी तरह आज भी किताबों से हटकर कुछ अलग करेंगे।

वैसे भी वैश्विक संकट कोरोना संक्रमण के प्रवेश से जीवन शैली में बदलाव आ गया है। लगभग दो महीने से हम लॉक डाउन में हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हमारे दिमाग के दरवाजे खटखटाते रहती हैं। हमारे यहां प्रेम सौहार्द दिखाने की जितनी भी गतिविधियां थी सब पर रोक लगा दी गई। दूर रहो, हाथ ना मिलाओ ,बाहर न जाओ। बात यही तक कहां... हमारा चेहरा जो बिना बोले हाव-भाव से बहुत कुछ प्रकट करने वाला ,अपनापन

जाहिर करने वाला ,उसे भी ठक कर रखना होता है।

इसलिए बच्चों। आज की पढ़ाई से आप स्वच्छंद हैं। अपनी अपनी स्वच्छंदता को सृजनशीलता का जामा पहनाइए, अपनी रचनात्मकता को बाहर लाइए ।

'हम हैं सिपाही। कोरोना पर पड़ेंगे भारी।

इस जज्बे के साथ देश के एक कुशल सिपाही की तरह रचनात्मक कार्य करें।

रेखांकित विषय पर कविता, कहानी,स्लोगन, पेंटिंग (कार्टून भी बना सकते हैं),निबंध,घटना

लेखन, व्यंग्य, चुटकुले आदि सारी विधाएं में कोई रचनात्मक कार्य करें।

ध्यान रहे,सुंदर आकर्षक सजीला बने। इसे बनाने के लिए घर में रखे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे- चार्ट पेपर, लकड़ी के गत्ते,रंगबिरंगा कूट, कलर पुराने अखबार या पत्रिका ।

आइए बच्चों, अब आपकी बारी ।जल्दी से अपने कार्य में जुट जाइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्रों के नाम की घोषणा की जाएगी।

आज के लिए इतना ही.....।

आपकी सुंदर रचनात्मक कार्यों की बेसब्री से
प्रतीक्षा करते हुए.....

फिर मिलते हैं।

ध्यान दें, अपना हाउस का नाम पता है
ना..... अलका, अनामिका, शुभा या
शेफालिका।

अपना विवरण लिखते समय अपने हाउस का
नाम अवश्य लिखें।

धन्यवाद।